



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name : SEENA W/O AVINASH Last Name : AVINASH
 Age : 20 Y Gender : Male Female
 Address : _____
 _____ Contact No. : _____
 E-mail ID _____
 Referred by _____ Contact No. : _____
 For Maternal Screening - Date of Birth :- DD MM YYYY
 Weight : _____ kg. Height : _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report _____

Billing Information

Client Name : Women Pride Healthcare
 Client ID : _____ Rewari
 Total Amount : _____
 Amount Received : _____ Receipt No. : _____
 Amount Balance / Due : _____
 Payment via : CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serum | <input type="checkbox"/> Bone Marrow | <input type="checkbox"/> CSF |
| <input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT | <input type="checkbox"/> FN Aspirate | <input type="checkbox"/> Fluid |
| <input checked="" type="checkbox"/> SST <u>(1)</u> | <input type="checkbox"/> Tissue Formalin | <input type="checkbox"/> BAL |
| <input type="checkbox"/> W. Blood EDTA | <input type="checkbox"/> Paraffin Block | <input type="checkbox"/> Sputum |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride | <input type="checkbox"/> Smear | <input type="checkbox"/> Urine |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Heparin | <input type="checkbox"/> Slide (H&E) | <input type="checkbox"/> Stool |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate | <input type="checkbox"/> Pus | <input type="checkbox"/> Swab |
| | <input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle | <input type="checkbox"/> Others |

Other Sample Type / Source : _____ (1)

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature : _____
 Ambient Refrigerated Frozen
 Date: 17/1/18 Time : _____
 Patient ID _____ No. of vials/container _____

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s)

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

Double Marker

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature : Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
<u>SST</u>	 Molq 10304730

Total No. of Vials/Container _____

Specimen Collection Information


Date: 17/1/18 Time : _____
 Fasting : Yes No Fasting Period : _____ Hrs.
 Collection by : MANDJ YADAV
 Urine Volume : _____ ml Hrs. _____

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Ultrakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यू प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध कराया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कभी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यू प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारी को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यू प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।


 Patient/Client/Doctor's Signature
 Date : _____

& IVF

Dr. Surender Singh Yadav
M.B.B.S, D.G.O(Pune), HCMS-1(Ex.)
Chairman & IVF Specialist



Lab No.	: 1204	Age / Sex	: 20 YRS / Female
Patient Name	: Mrs. SEENA	Reg. Date	: 17-Jan-2018 12:26 PM
Referring Doctor	: Dr. Surender Singh Yadav	Report Date	: 17-Jan-2018 01:30 PM
MR No.	: MR/17/000070	Approved Date	
IPD No.			

USG

USG(OBS)

Urinary Bladder -- Normal in wall thickness.
No intraluminal defect noticed.

Uterus -- Single live intrauterine gestational sac.
Cardiac Pulsation present
Yolk sac present
CRL :- 3.97cm
Average ----- 10wks 6days

No evidence of obvious adnexal mass lesion.
Nuchal translucency :- 1.8mm

Imp. Single live-intrauterine gestational sac of 10wks 6days

Adv. Follow up USG

All congenital anomalies cannot be picked up on ultrasound scan. The study does not guarantee complete detection of all fetal anomalies. An anomaly can also be missed due to constantly changing position of the fetus.
Dr. Surender Singh declare that I have neither detected nor disclosed the sex of fetus of this pregnant women to any body.

Dr. Surender Singh
M.B.B.S., D.G.O(Pune),HCMS-1(Ex.)

*** End Of Report ***

गर्भवति महिला की घोषणा

मे सुत्री Seena (गर्भवती महिला का नाम)
घोषणा करती हूँ कि मैंने अल्ट्रासाउण्डाफी छाया
चित्रण आदि करवाकर अपने घृण का लिंग जॉच नहीं
कराया है। घृण लिंग के विषय में हमारी डाक्टर
से कोई बातचीत नहीं हुई है।

सीना

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर/अंगूठा

Dr. Daksh Prajapati Chowk, B-Block, Suncity, Reawri-123401(Haryana) Mob. 9416907465
In case of clinicoradiological discrepancy please contact the radiologist immediately. All congenital malformation cannot be detected by ultrasound. Not valid for medico legal use.
विकिरण विज्ञान के मामले में कृपया radiologist से तुरंत संपर्क करें। सभी जनजात कुरुपता अल्ट्रासाउण्ड द्वारा नहीं खोजी जा सकती, चिकित्सा कानूनी उपयोग के लिए वैध नहीं है।